



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2001/फाल्गुन 18, 1922

No. 103]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2001/PHALGUNA 18, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2001

सा.का.नि. 167(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (i) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 86 के खंड (क) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (विशेष मताधिकार सहित शेयर पूंजी का निर्गमन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) “विशेष मताधिकार” के अंतर्गत लाभांश या मतदान करने के संबंध में अधिकार भी है;

(ग) “वित्तीय वर्ष” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (17) के अधीन यथापरिभाषित वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं वे और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. शर्तें.—शेयरों द्वारा सीमित प्रत्येक कंपनी लाभांश, मतदान या अन्यथा के लिए विशेष अधिकार सहित शेयर निर्गमित कर सकेगी, यदि 1. कंपनी ने, उस वर्षों से जिसमें उसे ऐसे शेयर निर्गमित करने का विनिश्चय किया था, पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 के निबंधनों के अनुसार लाभ वितरित किया है।

2. कंपनी ने उस वित्तीय वर्ष से जिसमें उसने उसे शेयर निर्गमित करने का विनिश्चय किया था, ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक लेखे और वार्षिक विवरणियां फाइल करने में व्यतिक्रम नहीं किया है।

3. कंपनी शोध्य तारीख को अपने निक्षेपों या उन पर ब्याजों का प्रतिदाय करने में या शोध्य तारीख को डिबेंचरों का मोचन करने में अथवा लाभांश का संदाय करने में असफल नहीं रही है।

4. कंपनी के संगम अनुच्छेद विशेष मताधिकार सहित शेयर निर्गमित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

5. कंपनी, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन उद्भूत किसी अपराध के लिए सिद्धोप नहीं ठहराई गई है।

6. कंपनी ने विनिधान कर्ताओं की शिकायतें दूर करने में व्यतिक्रम नहीं किया है।

7. कंपनी ने धारा 94 की उपधारा (2) ने साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों की अपेक्षानुसार साधारण अधिवेशन में संकल्प पारित करके शेयरधारकों का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है।

8. सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी ने डाक मतपत्रों द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है।

9. उस अधिवेशन की सूचना के साथ, जिसमें संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव है, एक स्पष्टीकारक विवरण है जिसमें निम्नलिखित के बारे में कथन है—

(क) मताधिकार की ऐसी दर जो विशेष मताधिकार सहित साधारण शेयर पूंजी की होगी;

(ख) वह मापमान या ऐसा अनुपात जो शेयरों के ऐसे वर्ग या किस्म का होगा;

(ग) कंपनी मताधिकार सहित अपनी साधारण पूंजी को विशेष मताधिकार सहित साधारण शेयर पूंजी में और विशेष मताधिकार सहित शेयरों को मताधिकार सहित साधारण शेयर पूंजी में परिवर्तित नहीं करेगी;

(घ) विशेष मताधिकार सहित शेयर, पुरोधृत कुल शेयर पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे;

(ङ) कंपनी का कोई ऐसा सदस्य जो विशेष मताधिकार सहित कोई साधारण शेयर धारण कर रहा है, बोनस शेयरों, उसी वर्ग के राइट शेयरों का हकदार होगा;

(च) विशेष मताधिकार सहित साधारण शेयरों के धारक ऊपर (क) में उपदर्शित मताधिकार को छोड़कर अन्य ऐसे सभी अधिकारों का उपभोग करेंगे, जिनके वे धारक हकदार हैं।

4. **रजिस्टर** :—नियम 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी अधिनियम की धारा 150 की अपेक्षानुसार एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें ऐसे विशेष अधिकारों की विशिष्टियां होंगी, जिनका धारक हकदार है।

[फ़. सं. 1/13/2000—सी एल वी]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2001

G.S.R. 167 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (a) of section 86 read with clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :

- (1) These rules may be called the Companies (Issue of Share Capital with Differential Voting Rights) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the contexts otherwise requires —

- (a) “Act” means the Companies Act, 1956 (1 of 1956),
- (b) “differential voting rights includes rights as to dividend or voting,”
- (c) “financial year” means financial year as defined under clause (17) of section 2 of the Act

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Companies Act, 1956 shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act

3. Conditions :—Every company limited by shares may issue shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise, if—

1 the company has distributable profits in terms of Section 205 of the Companies Act, 1956 for preceding three financial years preceding the year in which it was decided to issue such shares.

2 the company has not defaulted in filing annual accounts and annual returns for three financial years immediately preceding the financial year of the year in which it was decided to issue such share.

3. the company has not failed to repay its deposits or interest thereon on due date or redeem its debentures on due date or pay dividend

4. The Articles of Association of the company authorises the issue of shares with differential voting rights

5 the company has not been convicted of any offence arising under, Securities Exchange Board of India Act, 1992, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, Foreign Exchange Management Act, 1999.

6. the company has not defaulted in meeting investors' grievances

7 the company has obtained the approval of shareholders in General Meeting by passing resolution as required under the provision of sub-clause (a) of sub-section (1) of section 94 read with sub-section (2) of the said section

8 the listed public company obtained approval of shareholders through Postal Ballot.

9. the notice of the meeting at which resolution is proposed to be passed is accompanied by an explanatory statement stating -

(a) the rate of voting right which the equity share capital with differential voting right shall carry;

(b) the scale or in proportion to which the voting rights of such class or type of shares will vary,

(c) the company shall not convert its equity capital with voting rights into equity share capital with differential voting rights and the shares with differential voting rights into equity share capital with voting rights

(d) the shares with differential voting rights shall not exceed 25% of the total share capital issued;

(e) that a member of the company holding any equity share with differential voting rights shall be entitled to bonus shares, right shares of the same class;

(f) the holders of the equity shares with differential voting rights shall enjoy all other rights to which the holder is entitled to excepting right to vote as indicated in (a) above.

4. Register :—Every company referred to in rule 3 shall maintain a register as required under section 150 of the Act containing the particulars of differential rights to which the holder is entitled to.

[F. No. 1/13/2000-CLV]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

